



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042025-262645  
CG-DL-E-24042025-262645

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1806]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 23, 2025/वैशाख 3, 1947

No. 1806]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 23, 2025/VAISAKHA 3, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2025

सं. 05 / 2025-2026

विषय: आईटीसी (एचएस), 2022 के अध्याय 60 के अंतर्गत शामिल सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 1839(अ).—समय-समय पर यथा संशोधित, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. 77 / 2023 दिनांक 16.03.2024, अधिसूचना संख्या 33 / 2024-25 दिनांक 01.10.2024 और अधिसूचना सं. 49 / 2024-25 दिनांक 04.01.2025 द्वारा न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) लगाया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों के निम्नलिखित 04 आईटीसी (एचएस) कोडों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त को 31.03.2026 तक निम्नानुसार लगाया जाएगा।

| आईटीसी (एचएस) कोड | मद विवरण                       | संशोधित आयात नीति | नीतिगत शर्त  |
|-------------------|--------------------------------|-------------------|--|
| 60019200          | -अन्य :- मानव निर्मित धागों के | प्रतिबंधित        | तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम और इससे अधिक हो |

|          |   |            |  |
|----------|---|------------|--|
| 60053600 | -सिंथेटिक धागों के :--<br>अन्य ब्लीच नहीं किए गए<br>या ब्लीच किए गए | प्रतिबंधित | तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम और इससे अधिक हो |
| 60053790 | --- अन्य  | प्रतिबंधित | तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम और इससे अधिक हो |
| 60053900 | -सिंथेटिक धागों के :--<br>अन्य, मुद्रित                             | प्रतिबंधित | तथापि, आयात 'मुक्त' है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम और इससे अधिक हो |

2. उपरोक्त मदों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों द्वारा आयात हेतु लागू नहीं होगा, ब'र्ते कि आयातित निविष्टियां घरेलू प्र'ुल्क क्षेत्र (डीटीए) में नहीं बेची जाती हैं।

**इस अधिसूचना का प्रभाव:** आईटीसी (एचएस) 60019200, 60053600, 60053790 और 60053900 के अंतर्गत सिंथेटिक बुने हुए कपड़ों का आयात "प्रतिबंधित" है। तथापि, आयात "मुक्त" है यदि सीआईएफ मूल्य 3.5 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोग्राम और इससे अधिक हो। इसके अलावा अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और एसईजेड में इकाइयों से आयातित निविष्टियां न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त से छूट प्राप्त होगी।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध-39/एम-05/पीसी-2[क]/ई-1425]

अजय भादू, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2025

No. 05/2025-26

**Subject: Amendment in Import Policy Condition of Synthetic Knitted Fabrics Covered under Chapter 60 of the ITC (HS), 2022-reg.**

S.O. 1839(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy(FTP), 2023, as amended from time to time, and in partial modification to Notification No. 77/2023 dated 16.03.2024, No. 33/2024-25 dated 01.10.2024 and No. 49/2024-25 dated 04.01.2025, the Central Government hereby extends the condition of Minimum Import Price (MIP) on the following 04 ITC (HS) codes of Synthetic Knitted Fabrics upto 31.03.2026 as under:

| ITC(HS) Code | Item Description  | Import Policy | Policy condition   |
|--------------|---|---------------|--|
| 60019200     | - Other : -- Of man-made fibres                             | Restricted    | However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram |
| 60053600     | - Of synthetic fibres :<br>-- Other, unbleached or bleached | Restricted    | However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram |
| 60053790     | --- Other   | Restricted    | However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram |
| 60053900     | - Of synthetic fibres :<br>-- Other, printed                | Restricted    | However, import is 'Free' if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram |

2. MIP condition on above items shall not be applicable for imports by Advance Authorisation holders, Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZ subject to the condition that the imported inputs are not sold into Domestic Tariff Area(DTA).

**Effect of the Notification:** Import of Synthetic Knitted Fabrics under ITC (HS) Codes 60019200, 60053600, 60053790 and 60053900, is “Restricted”. However, import is ‘Free’ if CIF value is 3.5 US Dollar and above per Kilogram. Further inputs imported by Advance Authorisation holders, Export Oriented Units (EOUs) and units in the SEZ shall be exempted from MIP condition.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-39/AM-05/PC-2[A]/E-1425]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.